



## कबाड़ी बनकर रेकी फिर रात में करते थे माल पार

- थाना नौबस्ता पुलिस ने दो शातिर चोरों को दबोचा
- चोरों के पास से करीब 22 लाख का माल हुआ बरामद
- नौबस्ता व हनुमंत विहार क्षेत्रों में की चोरी की कई घटनाएं
- नौबस्ता पुलिस और सर्विलांस सेल को मिली बड़ी सफलता

कानपुर: कबाड़ी बनकर सूने और तालाबंद मकानों की रेकी करके रात में घरों से माल पार करने वाले दो शातिर चोरों को थाना नौबस्ता पुलिस और सर्विलांस सेल ने दबोच लिया। अभियुक्तों के पास से पुलिस को बड़ी मात्रा में कई चोरी की घटना का माल भी बरामद हुआ है। पुलिस ने शातिरों को उस वक्त दबोच लिया जब शातिर चोर चोरी के माल को बेचने के लिये जा रहे थे।

चोरी की लगातार हो रही घटना से डीसीपी साउथ प्रमोद कुमार द्वारा जोन की पुलिस को एक्शन मोड में रखा गया था। इसी बीच मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली की दो व्यक्ति चोरी का माल बेचने जा रहे हैं। जो मधुर मिलन चौराहे की तरफ से आने वाले हैं, इस बीच दोपहर एक बजे पुलिस ने दो अभियुक्तों को दबोच लिया। अभियुक्तों की पहचान दिनेश उर्फ राकेश सोनकर पुत्र स्व0 सूरजदीन निवासी-ग्राम बछरांवा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी उम्र 42 वर्ष और राजू गौतम पुत्र रामखेलावन निवासी-चैतपुरवा थाना बिल्हौर कानपुर नगर उम्र 24 वर्ष को हिरासत में ले लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्तों ने नौबस्ता व हनुमंत विहार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं किये जाने की बात कबूली है। अभियुक्तों ने बताया कि नौबस्ता थाना क्षेत्र में व हनुमन्त बिहार क्षेत्र में 160 ए आवास विकास व जुलाई के तीसरे हफ्ते में, पंडित चौराहे के पास 15 अगस्त से 01 दिन पहले, ओ ब्लाक यशोदा नगर में अगस्त के चौथे हफ्ते में, वाई ब्लाक यशोदा नगर में 17 सितम्बर को, वाई ब्लाक किदवई नगर में सितम्बर के दूसरे हफ्ते में, आवास विकास हंसपुरम में सितम्बर के आखिरी हफ्ते में, पशुपति नगर में सितम्बर के दूसरे हफ्ते में, भूरेपुर गांव में जुलाई के तीसरे हफ्ते में व राजेन्द्र नगर गल्ला मंडी में जुलाई के तीसरे हफ्ते में व मिल्लत नगर में सितम्बर के आखिरी हफ्ते में बन्द घरों से चोरी किये थे। बरामद माल इन्हीं चोरी की घटनाओं का है। अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

### नाम पता अभियुक्त:-

1. दिनेश उर्फ राकेश सोनकर पुत्र स्व0 सूरजदीन निवासी-ग्राम बछरांवा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी उम्र 42 वर्ष
2. राजू गौतम पुत्र रामखेलावन निवासी-चैतपुरवा थाना बिल्हौर कानपुर नगर उम्र 24 वर्ष

**बरामदगी:-** (माल बरामदगी करीब 22.00 लाख रुपये (अनुमानित), नगद 107720/- रुपया ( एक लाख सात हजार सात सौ बीस रुपया), पाँच अदद झुमकी सोने की, माला लाकेट सोने की, चार अदद चैन सोने की, कंगन 04 अदद सोने की, हार 02 अदद सोने की, आठ अदद अँगूठी सोने की, एक जोड़ी कान के झाले सोने की, मंगलसूत्र 01 अदद सोने की, माँग टीका 02 अदद सोने की, कान की 02 कील सोने की, सुई धागा 02 अदद सोने की, सोने का हार गले का 02 अदद, टप्स सोने का 06, लक्ष्मी की मूर्ति सोने की 01, चूड़ी 01 सोने की, पाँच नाक की कील सोने की, तेरह पायल चाँदी की, सफेद धातु का कंगन 03 चाँदी की, पाजेब 02 चाँदी की, आठ अदद बिछिया चाँदी की बरामद हुईं।

**-इन घटनाओं से सम्बन्धित माल बरामद हुआ**

मु0अ0सं0-551/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0-598/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0-622/2022 धारा 380/457/411 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0-676/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0-687/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0-697/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0 558/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0 685/2022 धारा 457/380/411 भादवि0 थाना नौबस्ता कानपुर नगर,  
मु0अ0सं0- 40/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना हनुमन्त बिहार,  
मु0अ0सं0-116/2022 धारा 457/380/411 भादवि थाना हनुमन्त बिहार पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय, व0उ0नि0 जमाल अहमद, उ0नि0 पवन मिश्रा, उ0नि0 राकेश कुमार प्रभारी सर्विलांस सेल, उ0नि0 राजेश कुमार, उ0नि0 नन्दू सिंह, हे0का0 राम किशोर, का0 सौरभ पाण्डेय, का0 मयंकदीप सर्विलांस सेल, का0 अक्षय पवार सर्विलांस सेल शामिल रहे।